



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256433
CG-DL-E-16082024-256433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 627]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

प्रत्याहार आदेश

फा.सं. 18-18/8105-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, सिद्धि विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, एनएच-75 झांसी रोड, ग्राम गांधारी, जिला दतिया-475661 (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद् द्वारा पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), मध्य प्रदेश राज्य सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरेरा हिल्स, भोपाल-462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18-18/15156-आईएनसी दिनांक 15.11.2022 को जारी किया गया था। दिनांक 15.11.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति सिद्धि विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, एनएच-75 झांसी रोड, ग्राम गांधारी, जिला दतिया-475661 (मध्य प्रदेश) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, सिद्धि विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी सिद्धि विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 06.04.2022 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि संस्थान पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 23.02.2023 से **सिद्धि विनायक पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, एनएच-75 झांसी रोड, ग्राम गांधारी, जिला दतिया-475661 (मध्य प्रदेश)** से पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सरकार के आदेशों के अधधीन केवल **मध्य प्रदेश राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

भारतीय उपचर्या परिषद्

[विज्ञापन-III/4/असा./396/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2024

WITHDRAWAL ORDER

F.No. 18-18/8105-INC:— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Siddhi Vinayak Paramedical & Nursing College** situated at **NH-75 Jhansi Road Village Gandhari, Distt. Datia 475661, Madhya Pradesh** is recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council to conduct **Post Basic B.Sc(N)** Course.

Whereas, a notice no. 18-18/15156-INC dated 15/11/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Madhya Pradesh Room No. 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 15/11/2022 was also enclosed to **Siddhi Vinayak Paramedical & Nursing College** situated at **NH-75 Jhansi Road Village Gandhari, Distt. Datia 475661, Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Siddhi Vinayak Paramedical & Nursing College**. Even the institution, **Siddhi Vinayak Paramedical & Nursing College** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 06/04/2022 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run Post Basic B.Sc(N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 23/02/2023 any person holding a recognized qualification of **Post Basic B.Sc(N)** from **Siddhi Vinayak Paramedical & Nursing College** situated at **NH-75 Jhansi Road Village Gandhari, Distt. Datia 475661, Madhya Pradesh**, shall be entitled to be registered only in the State of **Madhya Pradesh** subject to orders of state government of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secretary

Indian Nursing Council

[ADVT.-III/4/Exy./396/2024-25]